



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 19, 2006/पौष 29, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2006/PAUSA 29, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2006

सा.का.नि. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एक सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्के का "महात्मा बसवैश्वर" के सम्मान में सिक्का निर्माण नियम, 2006 है।

(2) के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—इन नियमों में "अधिनियम" से सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) अभिप्रेत है।

3. "महात्मा बसवैश्वर" के सम्मान में निर्मित किए गए कतिपय अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन उन के अनुज्ञात गुणों के अंतर की सीमा.—"महात्मा बसवैश्वर" के सम्मान में अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन निर्मित किए गए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात गुणों के अंतर की सीमा, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात सिक्कों के गुणों के अंतर की सीमा	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपए	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500 तक कमी-बेशी अर्थात् चांदी की अंतर्वस्तु में प्रति 1000 में 498 से 502 तक अंतर हो सकता है।	1/100 तक कमी-बेशी अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक अंतर हो सकता है।
पांच रुपए	9 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100 तक कमी-बेशी अर्थात् तांबा में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और निकल में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक अंतर हो सकता है।	1/40 तक कमी-बेशी अर्थात् वजन में 8.7750 ग्राम से 9.2250 ग्राम तक अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 13/7/2004-सिक्का II(I)]

नीलम बाला कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2006

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 21 read with Section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coinage of the Hundred Rupees and Five Rupees coined in honour of “MAHATMA BASAVESHWARA” Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, “Act” means the Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

3. **Standard Weight and Remedy allowed on coins of certain denominations coined in honour of “MAHATMA BASAVESHWARA”.**—The standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of Section 6 of the Act, in honour of “MAHATMA BASAVESHWARA” and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below :—

TABLE			
Denomination	Standard weight	Remedy Allowed	
		in composition	in standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver contents may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Five Rupees	9 Grams	1/100th plus or minus both for Copper and Nickel, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 8.7750 grams to 9.2250 grams.

[F. No. 13/7/2004-Coin II(I)]

NEELAM BALA KAPOOR, Under Secy.